

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 जून 2023—ज्येष्ठ 29, शक 1945

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जून 2023

क्रमांक AGR-13-13-0001-2023-Sec-2-चौदह(C.no.222652).- भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-02-2015-क्रेडिट-II, दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2023 में पटवारी हल्का, तहसील एवं जिलास्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना असाधारण राजपत्र क्रमांक 174, दिनांक 01 जून 2023 को जारी की गई है। प्रकाशित अधिसूचना में संलग्न सूची अनुसार बीमित इकाइयों एवं फसलों को जोड़ा जाता है। मूल अधिसूचना में प्रकाशित सूची के अतिरिक्त संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्कों/तहसीलों/जिलों के समक्ष अंकित फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बटीक 2023 हेतु पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची

पटवारी हल्का स्तर पर 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली जयन्तित फसलों की सूची

मौसम बटीक		पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची															
जिला	तहसील	राजस्व निरीक्षण मण्डल	पटवारी हलका नं.	पटवारी मुख्यालय	क्र.	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का कोड	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	तूर	धान - आसंचित	धान - सिंचित	बाजरा	मक्का	सायाबीन				
इंडोरी	इंडोरी	विक्रमपुर	00002	सरई रयत	18980	491839	सरई रे		धान - आसंचित			मक्का					
					18981	491841	नागदमन रे		धान - आसंचित			मक्का					
					18992	491842	सजहरा रे		धान - आसंचित			मक्का					
					16993	491864	मक्कर रे.		धान - आसंचित			मक्का					
			00003	जमगाव	16994	491838	जमगाव मा.		धान - आसंचित								
					16995	491840	नागदमन मा.		धान - आसंचित								
			00004	अमनी पिपरिया माल	16996	491846	अमनीपिपरिया		धान - आसंचित						गक्का		
					16997	491847	अमनीपिपरिया		धान - आसंचित						मक्का		
					16998	491848	भरदारा रे0		धान - आसंचित						मक्का		
			00005	दूधली मझोली रयत	16999	491843	दूधलीमझोली रे0		धान - आसंचित						मक्का		
					17000	491844	रली मा.		धान - आसंचित						मक्का		
					17001	491845	रली रे.		धान - आसंचित						गक्का		
			00006	छिवली माल	17002	491849	तुगदरा रे		धान - आसंचित						मक्का		
					17003	491850	तुगदरा मा.		धान - आसंचित						मक्का		
					17004	491851	छिवली रे		धान - आसंचित						मक्का		
					17005	491852	छिवली मा.		धान - आसंचित							मक्का	
			00007	बटोथा माल	17006	491853	लोदाइर मा0		धान - आसंचित						मक्का		
					17007	491854	बटोथा मा		धान - आसंचित							मक्का	
			00008	पाकर बधरा माल	17008	491859	पाकर बधरा मा0		धान - आसंचित						मक्का		
					17009	491860	बाधरा रे0		धान - आसंचित						गक्का		
					17010	491861	पाकर रे		धान - आसंचित							मक्का	
			00009	चिचरिंगपुर रयत	17011	491855	चिचरिंगपुर रे0		धान - आसंचित						मक्का		
					17012	491856	चंदोल रे.		धान - आसंचित						मक्का		
					17013	491857	मोहगाव रे		धान - आसंचित							मक्का	
					17014	491858	मोहनझोर मा		धान - आसंचित							मक्का	
			00010	सहजपुरी रयत	17015	491863	सहजपुरी रे		धान - आसंचित								
					17016	492378	पटकुही		धान - आसंचित								
			00011	सिलहरी रयत	17017	491862	सिलहरी रे		धान - आसंचित						मक्का		
					17018	491865	मोरचा रे		धान - आसंचित						मक्का		
					17019	491866	मोरचा मा		धान - आसंचित							मक्का	
					17020	491867	लखनपुरमा.		धान - आसंचित							मक्का	
			00012	मेर माल	17021	491868	टिकरिया रे		धान - आसंचित						मक्का		
					17022	491869	मेर मा.		धान - आसंचित							मक्का	
					17023	491870	पिपरिया खुद		धान - आसंचित							मक्का	
			00013	खमारिया माल	17024	491871	खमारिया रे.		धान - आसंचित						मक्का		
					17025	491872	खमारिया मा.		धान - आसंचित							मक्का	
					17026	491873	केवतारी रे		धान - आसंचित							मक्का	
			00014	दुहनिया रयत	17027	491874	दुहनिया रे0		धान - आसंचित						मक्का		
					17028	492377	कुदवारी		धान - आसंचित							मक्का	
			00015	सारंगपुर पडरिया	17029	491875	सारंगपुर		धान - आसंचित						मक्का		
					17030	491876	खारा रे.		धान - आसंचित							मक्का	
			00024	विक्रमपुर रयत	17031	491900	विक्रमपुर रे0		धान - आसंचित						मक्का		
					17032	491901	बरखाह रे.		धान - आसंचित							मक्का	
			00025	नुनखान रयत	17033	491902	नुनखान रयत		धान - आसंचित						मक्का		
			00028	आनाखंडा रयत	17034	491903	आनाखंडा रे0		धान - आसंचित						मक्का		
					17035	491904	दिपाबार रे		धान - आसंचित							मक्का	
			00027	कसई सोदा रयत	17036	491905	कराईरोदा		धान - आसंचित								
			00028	घुसिया माल	17037	491906	सिंगारपुर मा0		धान - आसंचित						मक्का		
					17038	491907	सिंगारपुर रे0		धान - आसंचित							मक्का	
					17039	491908	घुरिया मा.		धान - आसंचित							मक्का	

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करीफ 2023 हेतु पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची

पटवारी हल्का स्तर पर 80 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की सूची

मौसम करीफ														
जिला	तहसील	राजस्व निरीक्षण मण्डल	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय	क्र.	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का कोड	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	तुअर	धान - आंसींचित	धान - सिंचित	बाजरा	मक्का	सोयाबीन	
		शाहपुर	00029	दरौमोहगांव	17040	491909	गुसिया र		धान - आंसींचित			मक्का		
					17041	491910	दरौ मोहगांव		धान - आंसींचित			मक्का		
					17042	491911	बलही मा.		धान - आंसींचित			मक्का		
			00016	रामगुडा माल	17043	491879	बघाड मा.		धान - आंसींचित				मक्का	
					17044	491882	रामगुडा र0		धान - आंसींचित			मक्का		
					17045	491883	रामगुडा मा0		धान - आंसींचित			मक्का		
			00017	कुई माल	17046	491880	परासी र.		धान - आंसींचित				मक्का	
					17047	491881	परासी मा.		धान - आंसींचित			मक्का		
					17048	491885	कुई मा.		धान - आंसींचित			मक्का		
			00018	सारसताल	17049	491884	त्यागपुर र0		धान - आंसींचित				मक्का	
					17050	491886	सारसताल र		धान - आंसींचित			मक्का		
					17051	492381	रामपुर		धान - आंसींचित			मक्का		
					17052	492384	रानीबुद्धार		धान - आंसींचित			मक्का		
			00019	बूडन रगत	17053	491877	बूडन र		धान - आंसींचित				मक्का	
					17054	491878	दुनिया माल		धान - आंसींचित			मक्का		
					17055	492380	सुरखी		धान - आंसींचित			मक्का		
			00020	अझवार माल	17056	491888	जाटा र.		धान - आंसींचित				मक्का	
					17057	491889	जाटा मा.		धान - आंसींचित			मक्का		
					17058	491890	अझवार र.		धान - आंसींचित			मक्का		
					17059	491891	अझवार मा.		धान - आंसींचित			मक्का		
					17060	492379	उमरथा		धान - आंसींचित			मक्का		
			00021	गनवाही मा	17061	491887	कुरुदर		धान - आंसींचित				मक्का	
					17062	491892	मुटकी माल		धान - आंसींचित			मक्का		
					17063	491893	गनवाही		धान - आंसींचित			मक्का		
			00022	तन्दूर मोहतरा रगत	17064	491894	तन्दूर मोहतरा		धान - आंसींचित				मक्का	
					17065	491895	विनोदी मा		धान - आंसींचित			मक्का		
					17066	491896	चाटया मा.		धान - आंसींचित			मक्का		
			00023	गनेशपुर मा	17067	491897	गनेशपुर मा		धान - आंसींचित				मक्का	
					17068	491898	गनेशपुर धनगाव		धान - आंसींचित			मक्का		
					17069	491899	मिधरोड़ा मा0		धान - आंसींचित			मक्का		
			00030	चौरा मा	17070	491912	छिदगाव गा0		धान - आंसींचित				मक्का	
					17071	491913	छिदगाव र0		धान - आंसींचित			मक्का		
					17072	491914	चौरा मा		धान - आंसींचित			मक्का		
					17073	491915	चौरा र.		धान - आंसींचित			मक्का		
			00031	मुटिया खुद	17074	491916	मुटिया खुद		धान - आंसींचित				मक्का	
					17075	491917	सातोवाड़ा गा0		धान - आंसींचित			मक्का		
					17076	491918	सालोवाड़ा र0		धान - आंसींचित			मक्का		
			00032	केवतारी रगत	17077	491920	केवतारी र		धान - आंसींचित				मक्का	
					17078	491921	पड़ारया र		धान - आंसींचित			मक्का		
					17079	492129	केवतारी मा		धान - आंसींचित			मक्का		
			00033	जूनवानी मा0	17080	491922	जूनवानी		धान - आंसींचित				मक्का	
					17081	491923	खुरपार		धान - आंसींचित			मक्का		
			00034	मुटियाकला	17082	491924	मुटियाकला		धान - आंसींचित				मक्का	
					17083	491925	कुकेवारा मा0		धान - आंसींचित			मक्का		
					17084	491926	कुकेवारा र0		धान - आंसींचित			मक्का		
			00035	बिदयपुर रगत	17085	491927	बिदयपुर र		धान - आंसींचित				मक्का	
					17086	491928	खाम्ही मा.		धान - आंसींचित			मक्का		
					17087	491929	खाम्ही र.		धान - आंसींचित			मक्का		